

PR301

Roll No. :

Date of Examination : 2018

(30)

PRINTING MATERIALS

निर्धारित समय : तीन घंटे]

[अधिकतम अंक : 70
[Maximum Marks : 70]

Time allowed : Three Hours]

नोट : (i) प्रथम प्रश्न अनिवार्य है, शेष में से किन्हीं पाँच के उत्तर दीजिये।

Note : Question No. 1 is compulsory, answer any **FIVE** questions from the remaining.

(ii) प्रत्येक प्रश्न के सभी भागों को क्रमवार एक साथ हल कीजिये।

Solve all parts of a question consecutively together.

(iii) प्रत्येक प्रश्न को नये पृष्ठ से प्रारम्भ कीजिये।

Start each question on fresh page.

(iv) दोनों भाषाओं में अन्तर होने की स्थिति में अंग्रेजी अनुवाद ही मान्य है।

Only English version is valid in case of difference in both the languages.

1. निम्नलिखित को परिभाषित कीजिए :

Define the following :

(i) पिग्मैन्ट

Pigment

(ii) स्ट्रिपिंग

Stripping

(iii) प्लास्टिक

Plastic

(iv) रोलर्स

Rollers

(2×5)

2. कागज निर्माण प्रक्रिया के प्रमुख चरणों की व्याख्या कीजिए।

Explain main stages of paper manufacturing process.

(12)

3. मुद्रण में प्रयुक्त फिल्मों के प्रकार व उनके उपयोगों की विवेचना कीजिए।
Make analysis of photographic films, their types and applications. (12)
4. विभिन्न प्रकार की मुद्रण प्रक्रियाओं के आधार पर आप कागज का चयन किस प्रकार करेंगे ? विस्तार से व्याख्या कीजिए।
How will you select the paper on the basis of different printing processes ? Describe in detail. (12)
5. निम्नलिखित को समझाइए :
Explain the following :
 (i) सरफेस ट्रीटमेंट
Surface treatment
 (ii) तापमान व अशुद्धियों का धातु पर प्रभाव
Effect of temperature and impurities on metal.
 (iii) कागज के प्रकार
Types of paper
 (iv) लैमिनेटिंग
Laminating (4x3)
6. सामग्री प्रबंधन किसे कहते हैं ? मुद्रण पदार्थों के भण्डारण व रखरखाव की व्याख्या कीजिए।
What is Material Management ? Describe the storage and care of printing materials. (12)
7. मुद्रण स्थाहियों के प्रमुख घटक व उनके प्रकार की व्याख्या कीजिए।
Describe the main components and types of printing inks. (12)
8. संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए :
Write short notes :
 (i) ऐडहिसिव
Adhesive
 (ii) संवेदी पदार्थ
Sensitive materials
 (iii) किनारा सजावट हेतु रंगीय पदार्थ
Colouring materials for edge decoration (4x3)